

College Code : 106



अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.) मुख्य/पूरक/सेमेस्टर परीक्षा- 20..... HM No.

परीक्षार्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश

1. उत्तर पुस्तिका प्राप्त होते ही यह जांच ले कि मुख्य पूर्ण महित पूर्णों की कुल संख्या 32 है। यदि कोई पूर्ण खाल हो या कम हो तो कक्ष मिशनिक/वीडियो को अवश्य करावें।
2. उत्तर पुस्तिका के मुख्य पूर्ण पर दिये गये नियमित जाह पर अपना अनुक्रमांक, नामांकन क्रमांक एवं अन्य जानकारी सावधानीसंगीत लिखें।
3. उत्तर पुस्तिका के मुख्य पूर्ण से उत्तर लिखना प्रारंभ करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नये पृष्ठ से लिखने के लिए अच्छी धुणवता वाले गंती या कानी या शाही के बीती भाषा को खाली छोड़ दें तर्के लंग नये पृष्ठ से उत्तर लिखना प्रारंभ करें। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर नये पृष्ठ से लिखें।
4. मनीजिंग/रेजिस्ट्रेशन/उत्तर का साचित लाइन को छोड़कर उत्तर लिखने के लिए अच्छी धुणवता वाले गंती या कानी या शाही के बीती भाषा को खाली छोड़ दें।
5. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में अपने साथ कोई भी लिखित सामग्री जैसे-संबंधित विषय/प्रश्न पर से संबंधित पाठ्यपुस्तिका, नोट्स, कागज, अपने शीर्ष के लिखित सामग्री भी अग्र या वस्त्र में लिखकर न लावें। अन्यथा अनुचित सामग्री नकल का प्रकरण माना जावेगा।
6. परीक्षा खत्तन में मोबाइल फोन, डिजिटल घड़ी/पेन, साइरिटिक कंट्रोलर आदि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस पूर्ण प्रतिबोधित हैं।
7. उत्तर पुस्तिका में पृष्ठ गये प्रश्नों के अतिक्रित परीक्षक के लिए लिखी भी प्रकार का अमाल शब्द/वाक्य अथवा किसी भी प्रकार का पहचान चिह्न/निशान/संकेत अंकित न करें।
8. परीक्षार्थी प्रश्न पर एवं अनुक्रमांक के आलावा कुछ भी निखिल एवं रस-कार्य न करें।
9. परीक्षार्थी परीक्षा कक्ष में वीडियो/केन्द्रायस्थ/उड़नदत्ता दत्त के अधिकारियों के आदर्शों/अनुरेशों का पालन करें एवं अनुशासित हों। परीक्षा संचालन से संबंधित किसी भी व्यक्ति से अधद व्यवहार न करें।
10. परीक्षार्थी उत्तर पुस्तिका में प्रश्नों के उत्तर लिखने में पूर्णों का गंप न करें। उत्तर लिखने के बाद वस्त्र किस दूसरों को एक लिखते हुए दें।
11. परीक्षा प्रारंभ होने के एक घण्टे के बाद ही परीक्षा कक्ष छोड़ने की अनुमति दी जावेगी। उपर्योग में लायी गयी सूक्ष्म उत्तर पुस्तिका के मुख्य पूर्ण में नियमित सीन पर अंकित वर्तमान लिखें।
12. परीक्षा समाप्त होने के पश्चात अपनी उत्तर पुस्तिका वीडियो को सीमित के बाद वीडियो की कक्ष छोड़ें।
13. परीक्षा समाप्त होने से पूर्व वीडियो, परीक्षार्थी द्वारा मुख्य उत्तर पुस्तिका के मुख्य पूर्ण में लिखित सीन-जैसे-अनुक्रमांक/नामांकन क्रमांक/विषय/प्रश्न पर एवं प्रश्न पर का नाम आदि की जांच अवश्य कर लें।
14. प्रश्न पर में पूछे गये प्रश्नों/वृत्तियों के संबंध में यदि कोई विकायत हो तो अपनी विकायत परीक्षा समाप्ति के तुत बाद लिखित रूप में केन्द्रायस्थ विषय के लिए लिखित रूप में दें। परीक्षा का विहिष्यार कलन पर दोबारा परीक्षा आयोजित नहीं की जावेगी।
15. यदि किडिका 2,3,4,5,6,7,8,11 एवं 12 का पालन नहीं किया जाता है तो वह अनुचित सामग्री का प्रकरण माना जायेगा।

परीक्षार्थियों को चेतावनी

अनुशासनीकृत कानूनों का पालन न करने अथवा अनुचित सामग्री का प्रयोग करने के विळास स्वतंत्र ऐसे परीक्षार्थियों को दंडनाकृत परीक्षाओं में समाप्ति दी जावेगी। अतार्थिक परीक्षाओं में होने पर भार.म. के अनुसार कानूनी कार्यवाही भी की जावेगी।

केन्द्रायस्थ के हस्ताक्षर की पुस्त

4889

परीक्षा का नाम.....	प्रश्न पत्र का नाम.....
अनुक्रमांक (अंकों में) Roll No.	अनुक्रमांक (साल्वॉन में) Roll No.
.....

प्रश्न पत्र का नाम :-	प्रश्न पत्र का नाम :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

संलग्न पूरक उत्तरपुस्तिकाओं की संख्या :-	परीक्षार्थी द्वारा हल किये गये प्रश्नों की संख्या :-
.....
.....

दिन :-	दिन :-
.....
.....

प्रश्न पत्र का संख्या :-	प्रश्न पत्र का संख्या :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

प्रश्न पत्र का नियांक :-	प्रश्न पत्र का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....

परीक्षा का नियांक :-	परीक्षा का नियांक :-
.....
.....
